



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1631]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2017/ज्येष्ठ 18, 1939

No. 1631]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2017/JYAISTHA 18, 1939

I Mē ifjogu vḷḡ jktekxl eḡky;

vf/kl ṡpuk

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

dk-vk- 1838½/½—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि vḷḡ/ḡ ins'k jkt; के xṡ/j ftyseajk"Vh; jktekxl l ḡ; k 5 ds 0-040 fd-eh- l s 16-000 fd-eh ṡot; okMk ckbi kl l ḡ'ku½ तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् jktLo eMy vf/ḡdkjh] xṡ/j] को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के 0.040 कि. मी. से 16.000 कि. मी. तक (गुण्डुगोलनु-विजयवाडा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना साहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| क्रम संख्या | जिला का नाम | तलूक का नाम | गाव का नाम         | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार      | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| (1)         | (2)         | (3)         | (4)                | (5)              | (6)                 | (7)             | (8)                             |
| 1           | गुंटूर      | मंगलगिरी    | (1)<br>चिन्नकाकानि | 211/3A2          | निजी                | शुष्क           | 2910                            |
|             |             |             |                    | 211/3C2          | निजी                | शुष्क           | 809                             |
|             |             |             |                    | 222/D1B2         | निजी                | शुष्क           | 65                              |
|             |             |             |                    | 208/5A1B         | निजी                | शुष्क           | 445                             |
|             |             |             | (2)<br>नवलूर       | 2/2B             | निजी                | शुष्क           | 891                             |
|             |             |             |                    | 39/C2            | निजी                | शुष्क           | 1445                            |
|             |             |             |                    | 267/A2           | निजी                | शुष्क           | 890                             |
|             |             |             |                    | 267/B3           | निजी                | शुष्क           | 405                             |
|             |             |             |                    | 354/2            | निजी                | शुष्क           | 103                             |
|             |             |             |                    | 364/3A           | निजी                | शुष्क           | 4700                            |
|             |             |             |                    | 365              | सरकारी              | पोरम्बोक        | 1012                            |
|             |             |             |                    | 370/B1           | निजी                | शुष्क           | 405                             |
|             |             |             |                    | 372/C2A          | निजी                | शुष्क           | 4876                            |
|             |             |             |                    | 372/A2A          | निजी                | शुष्क           | 202                             |
|             |             |             |                    | 575/B            | निजी                | शुष्क           | 283                             |
|             |             |             |                    | 577/2A1          | निजी                | शुष्क           | 627                             |
|             |             |             |                    | 610              | अस्सैन्ड पट्टा भूमि | शुष्क           | 5600                            |
|             |             |             | कुल                |                  |                     |                 | 25668                           |

[फा. सं. 3(ए)/पीआईयू-विजयवाडा/भाराराप्रा/एचक्यू/11013/एलए/एनडीएलए/2016-17]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2017

**S.O. 1838(E).**—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/six-laning, etc.) maintenance, management and operation of **National Highway No. 5 on the stretch of land from Km. 0.040 to Km. 16.000 (Vijayawada Bypass Section) in the District of Guntur in the State of Andhra Pradesh**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the **Revenue Divisional Officer, Guntur** in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

#### SCHEDULE

**Brief description of the lands to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0.040 to Km. 16.000 (Vijayawada Bypass Section) of the National Highway No. 5 in the state of Andhra Pradesh**

| Sl. No. | Name of the District | Name of the Taluk/ Mandal | Name of the Village | Survey / Plot Number | Type of land        | Nature of Land | Area (In Square Meters) |
|---------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| 1       | 2                    | 3                         | 4                   | 5                    | 6                   | 7              | 8                       |
| 1       | Guntur               | Mangalagiri               | (1)<br>Chinnakakani | 211/3A2              | Private             | Dry            | 2910                    |
|         |                      |                           |                     | 211/3C2              | Private             | Dry            | 809                     |
|         |                      |                           |                     | 222/D1B2             | Private             | Dry            | 65                      |
|         |                      |                           |                     | 208/5A1B             | Private             | Dry            | 445                     |
|         |                      |                           | (2)<br>Navuluru     | 2/2B                 | Private             | Dry            | 891                     |
|         |                      |                           |                     | 39/C2                | Private             | Dry            | 1445                    |
|         |                      |                           |                     | 267/A2               | Private             | Dry            | 890                     |
|         |                      |                           |                     | 267/B3               | Private             | Dry            | 405                     |
|         |                      |                           |                     | 354/2                | Private             | Dry            | 103                     |
|         |                      |                           |                     | 364/3A               | Private             | Dry            | 4700                    |
|         |                      |                           |                     | 365                  | Govt.               | Poramboke      | 1012                    |
|         |                      |                           |                     | 370/B1               | Private             | Dry            | 405                     |
|         |                      |                           |                     | 372/C2A              | Private             | Dry            | 4876                    |
|         |                      |                           |                     | 372/A2A              | Private             | Dry            | 202                     |
|         |                      |                           |                     | 575/B                | Private             | Dry            | 283                     |
|         |                      |                           |                     | 577/2A1              | Private             | Dry            | 627                     |
|         |                      |                           |                     | 610                  | Assigned Patta Land | Dry            | 5600                    |
| TOTAL   |                      |                           |                     |                      |                     |                | 25668                   |

[F. No. 3(A)/PIU/Vijayawada/NHAI/HQ/11013/LA/NDLS/2016-17]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.